



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 (i)
PART II—Section 3 (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 209]
No. 209]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 1979/आषाढ़ 7, 1901
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 1979/ASADHA 7, 1901

इस भाग में जिस पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि और सिंचाई मंत्रालय
(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 जून, 1979

सा. का. नि. 415 (अ)/आव. वस्तु/चीनी.—केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश करती है कि कोई भी उत्पादक,—

- (1) किसी मान्यताप्राप्त व्यवहारी को, ऐसे विक्रय को अनुज्ञात करने वाले किसी आदेश के अंतर्गत आने वाली चीनी के उपलब्ध रहने पर, विक्रय करने में इंकार नहीं करेगा, या
- (2) विक्रय के लिए उसे की गई चीनी के मासिक कंटे के, बीस प्रतिशत से कम का उस मास की निम्नलिखित अवधियों में से प्रत्येक में, विक्रय और प्रेषण नहीं करेगा, अर्थात् :—

- (क) 1 से 7 तारीख तक
- (ख) 8 से 15 तारीख तक
- (ग) 16 से 22 तारीख तक
- (घ) 23 तारीख से मासिक का :

परन्तु 1 से 7 तारीख तक की अवधि के लिए मासिक कंटे के न्यूनतम 20 का प्रेषण, 10 तारीख तक पूरा किया जा सकेगा, किन्तु यह तब जब कि 15 तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कुल न्यूनतम प्रेषण, मासिक कंटे के 40 प्रतिशत से कम नहीं है ।

- (3) किसी मान्यताप्राप्त व्यवहारी को उपर्युक्त मद् (2) में उल्लिखित साप्ताहिक अवधियों में से प्रत्येक में 5000 क्विंटल से अधिक चीनी प्रेषित नहीं करेगा ;

परन्तु इस आदेश की कोई बात—

- (क) सरकारी खाते, या
- (ख) उचित मूल्य की घूकानों के माध्यम से वितरण के लिए राज्य सरकार के नामनिर्देशीयों को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, या
- (ग) भारतीय, खाद्य निगम को

किए गए चीनी के विक्रय या प्रेषण को लागू नहीं होगी ।

2. यह आदेश तारीख 1 जुलाई, 1979 से प्रवृत्त होगा ।

[सं. 1-28/79-एस पी वाई(डी-2)]

सी. एन राघवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 28th June, 1979

G.S.R. 415(E)/Fas. Com./Sugar.—In exercise of the Powers conferred by clause 5 of the Sugar (Control) Order,

1966, the Central Government hereby directs that no producer shall,—

- (i) subject to the availability of sugar covered by an Order permitting such sale, refuse to sell sugar to a recognised dealer, or
- (ii) sell and despatch less than twenty percent of the monthly quota of sugar released to him for sale, in each of the following periods of a month, namely :—
 - (a) 1st to the 7th,
 - (b) 8th to the 15th,
 - (c) 16th to the 22nd,
 - (d) 23rd to the end of the month :

Provided that, the despatch of minimum 20 per cent of the monthly quota for the period 1st to 7th may be completed upto the 10th, if the total minimum despatch for the period ending 15th is not less than 40 per cent of the monthly quota,

- (iii) despatch more than 5000 quintals of sugar in each of the weekly periods mentioned in item (ii) above, to any recognised dealer :

Provided that nothing in this order shall apply to the sale or despatch of sugar :

- (a) on Government account; or
- (b) to the nominees of the State Government or an officer authorised by it for distribution through fair price shops; or
- (c) to the Food Corporation of India.

2. This order shall come into force with effect from the first day of July, 1979.

[No. 1-28/79-SPY(D-II)]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.